



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1936 (श0)

(सं0 पटना 708) पटना, वृहस्पतिवार, 28 अगस्त 2014

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

22 अगस्त 2014

सं0 07/नि.(विधि-05) रा.स.स. (परिसमापन)-02/2013-4776—चूंकि, न्यायालय बिहार सहकारी अधिकरण, पटना के द्वारा विविध वाद संख्या-01/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.11.13/18.11.13 (निर्गत ज्ञापांक 22 दिनांक 21.11.13) द्वारा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 की धारा-44 (3) के प्रावधानानुसार निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार के पर्यवेक्षण में बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-7 को परिसमापित एवं विघटित करने का आदेश देते हुए बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45 (क) में विहित प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति के परिसमापक नियुक्त करने की कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया था।

तदनुसार इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 5661 दिनांक 05.12.13 द्वारा परिसमापनाधीन बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग, पटना-7 के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ श्री डा. एन. सरवन कुमार, जिला पदाधिकारी, पटना को बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग, पटना-7 को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परन्तु इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए परिसमापनाधीन उक्त प्रासंगिक सोसाइटी में परिसमापक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, हुकुम सिंह मीणा, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा- 45(क) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, श्री मनीष कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी, पटना

को परिसमापनाधीन बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग, पटना-7 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-46, 47 एवं 48 में विहित प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति के परिसमापन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,

हुकुम सिंह मीणा,

निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 708-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>